



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937

No. 81]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

सं. 29-प्रेज/2016.—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों/संगठन को कुलाध्यक्ष पुरस्कार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार प्राप्तकर्ता
1.	सर्वोत्तम विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	तेजपुर विश्वविद्यालय
2.	नवान्वेषण के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	जैव प्रौद्योगिकी विद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. राकेश भट्टाचार्य
3.	अनुसंधान के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मोलेक्यूलर पैरासाइटोलॉजी समूह

सुरेश यादव, राष्ट्रपति के विशेष अधिकारी

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2016

No. 29-Pres/2016.—The President is pleased to award the Visitor's Awards to the following persons/organisation:

Sl.No.	Title of the Award	Awardee
1.	Visitor's Award for the Best University	Tezpur University
2.	Visitor's Award for Innovation	Prof. Rakesh Bhatnagar, School of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University
3.	Visitor's Award for Research	Molecular Parasitology Group, Jawaharlal Nehru University

SURESH YADAV, OSD to the President